

प्रेस नोट दिनांक 23.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 02 अभियुक्तों के कब्जे से 02 अभियुक्तों के कब्जे से 20 क्वार्टर देशी व 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(क). उ0नि0 श्री अजहर जमाल तथा उनके हमराही आरक्षी होलीकेन्द्र द्वारा अभियुक्त मुन्नवर पुत्र मुस्लिम अंसारी निवासी पटहठ थाना जनेह जिला रीवा म0प्र0 को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना मऊ तथा उनके हमराही आरक्षी नागेश कुमार द्वारा सुनील पुत्र अशोक कुमार निवासी बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

(2). आज दिनांक-23.07.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में थाना कोतवाली कर्वी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह, पीआरओ श्री वीरप्रताप सिंह तथा पुलिस एवं राजस्व के अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). आज दिनांक-23.07.2022 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय की अध्यक्षता में थाना बरगढ़ एवं थाना मऊ में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान थाना मऊ में उपजिलाधिकारी मऊ श्री नवदीप शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजीव कुमार सिंह, थाना बरगढ़ में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवमूरत यादव, पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारीग/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनांक 23.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(5). दिनांक-22.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(6). आज दिनांक-23.07.2022 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में आगामी श्रावण मास अमावस्या मेला के दृष्टिगत कलैक्ट्रेट सभागार सोनेपुर में गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में महोदय द्वारा अमावस्या मेला के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में अपर जिलाधिकारी चित्रकूट, अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय, उपजिलाधिकारी सदर श्रीमती पूजा यादव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह, यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव, पीआरओ श्री प्रदीप कुमार एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।